



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 वैशाख 1937 (श0)  
(सं0 पटना 542) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मई 2015

---

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना

13 मार्च 2015

सं0 1710—श्री ठाकुर राधाकृष्ण महादेवजी जोड़ा मंदिर, आरा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं0— 763 है।

पर्षदीय पत्रांक-1933, दिनांक 10/12/2008 द्वारा न्यास समिति का गठन, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्षों तक का था। इस न्यास समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। इस न्यास की व्यवस्था के संबंध में स्थानीय जनता ने न्यास समिति के विरुद्ध कई गंभीर आरोप गठित किये थे। स्थानीय जनता के प्राप्त आवेदन के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-1143, दिनांक 20/09/13 द्वारा थाना प्रभारी, टाउन थाना, आरा (भोजपुर) तथा पर्षदीय पत्रांक-1144, दिनांक 20/09/13 द्वारा अंचल पदाधिकारी, आरा से न्यास समिति पर गठित आरोपों के संबंध में जांच कर एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था, साथ ही पर्षदीय पत्रांक-1142, दिनांक 20/09/13 द्वारा न्यास के सचिव से कारण-पृच्छा की गयी थी। पर्षदीय पत्रांक-1143, दिनांक 20/09/13 के अनुपालन में थाना प्रभारी, टाउन थाना, आरा (भोजपुर) ने अपने पत्रांक-डी0आर 4261/13, दिनांक 19/12/13 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन, न्यास समिति के सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा के विरुद्ध प्राप्त हुआ एवं न्यास समिति तथा सचिव पर उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की गयी थी। पर्षदीय पत्रांक-1996, दिनांक 25/01/2014 के माध्यम से अंचल पदाधिकारी, आरा (भोजपुर) को स्मार-पत्र भेजा गया।

अंचल पदाधिकारी, आरा (भोजपुर) ने अपने पत्रांक-760, दिनांक 11/08/2014 में पर्षदीय पत्रांक- 1144, दिनांक 20/09/14 एवं पत्रांक-1996, दिनांक 25/01/14 के प्रसंग में जांच करते हुए लिखा की मंदिर की वर्तमान में विकास, पूजा-पाठ, स्थानीय किरायेदारों एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से विकसित किया गया। अंचलाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में नियमानुकूल व्यवस्था करने का अनुरोध किया।

स्थानीय वार्ड पार्षद श्री लल्लु कुमार, वार्ड नं0-10 ने सूचित किया कि दिनांक 28/10/14 को अंचल पदाधिकारी, आरा की उपस्थिति एवं अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन मंदिर प्रांगण किया गया। जिसमें न्यास

की व्यवस्था हेतु 11 सदस्यों का चयन किया गया। आम सभा की कार्यवाही को अंचल पदाधिकारी, सदर, आरा ने अभिप्रमाणित भी किया।

इसके उपरान्त थाना प्रभारी, टाउन थाना को पर्षदीय पत्रांक-1389, दिनांक 20/01/15 द्वारा प्रस्तावित सदस्यों की सूची में वर्णित नामों का चरित्र-सत्यापन करने का अनुरोध किया गया। जिसके अनुपालन में थाना प्रभारी, टाउन थाना ने अपने पत्रांक-345/15, दिनांक 06/02/15 के द्वारा अग्रसारित जांच प्रतिवेदन में 4 सदस्यों का चरित्र-सत्यापन प्रेषित किया, जिसमें लिखा गया कि इनके विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज नहीं है। साथ ही श्री अशोक कुमार शुक्ल के द्वारा सभी सदस्यों का लोक सेवाओं के अधिकार के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के द्वारा निर्गत चरित्र-प्रमाण-पत्र, जो अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है, समर्पित किया गया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री ठाकुर राधाकृष्ण महादेवजी जोड़ा मंदिर, आरा** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का पुर्नगठन किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “**श्री ठाकुर राधाकृष्ण महादेवजी जोड़ा मंदिर न्यास योजना, आरा**” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “**श्री ठाकुर राधाकृष्ण महादेवजी जोड़ा मंदिर न्यास समिति, आरा**” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्यवाही करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- |     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| (1) | श्री अशोक कुमार शुक्ला  | — | अध्यक्ष    |
|     | पिता- स्व0 दशरथ शुक्ला, शुक्लपुरा, पो0- दरियापुर, थाना- मुफसिल, भोजपुर    |   |            |
| (2) | श्री जितेन्द्र सिंह   | — | सचिव       |
|     | पिता- ध्रुव सिंह, केशोपुर, पो0+थाना- बड़हरा, भोजपुर                       |   |            |
| (3) | श्री गणेश प्रसाद केशरी  | — | कोषाध्यक्ष |
|     | पिता- स्व0 सूरज प्र0 केशरी, जलपुरा, पो0- श्रीपालपुर, थाना- कोईलवर, भोजपुर |   |            |
| (4) | श्री ब्रह्मेश्वर नाथ पाण्डेय  | — | सदस्य      |
|     | पिता- स्व0 श्यामजी पाण्डेय, ग्राम+पो0- रामशहर, थाना- बड़हरा, भोजपुर       |   |            |
| (5) | श्री संजय पाठक  | — | “          |
|     | पिता- श्री शत्रुञ्जय पाठक, मारुतिनगर मठिया के पास, पो0+थाना- आरा, भोजपुर  |   |            |

- |      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| (6)  | श्री धनजीत सिंह  | — | सदस्य |
|      | पिता— स्व० वीरेन्द्र कुमार सिंह, जलपुरा, पो०— श्रीपालपुर, थाना— कोईलवर, भोजपुर |   |       |
| (7)  | श्री मनोज कुमार पाठक   | — | “     |
|      | पिता— श्री ललन पाठक, नरहीं, पो०— नरहीं चांदी, थाना— चांदी, भोजपुर              |   |       |
| (8)  | श्री ब्रज किशोर सिंह   | — | “     |
|      | पिता— स्व० दिनेश सिंह, एम०पी० बाग, पो०— आरा, थाना— आरा नगर, भोजपुर             |   |       |
| (9)  | श्री दिनेश प्रसाद  | — | “     |
|      | पिता— स्व० रामनरेश चंद्रवंशी, गोला मुहल्ला, पो०+थाना— आरा, भोजपुर              |   |       |
| (10) | श्री संजय कुमार चन्द्रवंशी   | — | “     |
|      | पिता— स्व० मदनजी प्रसाद, पश्चिम टोला, पो०+थाना— आरा, भोजपुर                    |   |       |
| (11) | श्री अनिल शुक्ला   | — | “     |
|      | पिता— श्री बासुकीनाथ शुक्ला, न्यु पुलिस लाईन, पो०—आरा, थाना—आरा नवादा, भोजपुर  |   |       |

12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के अवधि विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 542-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>